

अगस्त,2018 के महत्वपूर्ण प्रयास.....

* प्रदेश के मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद-श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, सांसदद्वय-श्री अनूप मिश्रा एवं डॉ. भागीरथ प्रसाद, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-श्रीमती माया सिंह, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनशिकायत निवारण मंत्री-श्री जयभान सिंह पवैया, जल संसाधन व जनसम्पर्क मंत्री-डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री-श्री नारायण सिंह कुशवाह को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में पृथक से नवीन सिविल एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने हेतु भारत सरकार की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति के अंतर्गत, नागर विमानन मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की माँग की गई ।

* महाप्रबंधक (योजना) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु, भारत सरकार की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति की प्रति उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया ।

* केन्द्रीय रेलमंत्री-श्री पीयूष गोयल एवं चेयरमैन, भारतीय रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर शहर में संचालित नेरोगेज ट्रेन को सिटी ट्रेन के रूप में संचालित किए जाने एवं ग्वालियर स्टेशन का विस्तार कर, आधुनिकीकरण किए जाने की माँग की गई ।

* आयुक्त नगर-निगम को पत्र प्रेषित कर, शहर के प्रमुख बाजार जयेन्द्रगंज में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ एवं नियमित रूप से सफाई किए जाने व कचरा उठाए जाने की उचित व्यवस्था करने सहित व्यवसायों एवं ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए बाजार में मूत्रालयों का निर्माण भी कराए जाने की माँग की गई, जिससे कि शहर के व्यवसायों सहित ग्राहकों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके ।

* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, जयेन्द्रगंज में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वहाँ के व्यवसायों एवं उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए जयेन्द्रगंज में दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु उचित स्थान का चयन कर, पार्किंग उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई । साथ ही, जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक सड़क किनारे (सफेद लाइन के अंदर) पार्क किए गए वाहनों के ई-चालान पर रोक लगाए जाने की भी माँग की गई है, जिससे उक्त बाजार के व्यवसायों एवं ग्राहकों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके ।

* मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना को पत्र प्रेषित कर, स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जीयाजी चौक (ब्लाडा) पर स्थापित ऐतिहासिक पार्क सहित अन्य प्रस्तावित कार्यों पर जब तक कोई आमसहमति नहीं बनती है, तब तक जीयाजी चौक (ब्लाडा) के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं किए जाने की माँग की गई है ।

- * प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र प्रेषित कर ग्वालियर-पुणे के मध्य हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन प्रारम्भ किए जाने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया गया ।
- * महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर-भोपाल इंटरसिटी को व्हाया झाँसी चलाए जाने एवं भिण्ड-रतलाम एक्सप्रेस को कानपुर तक संचालित किए जाने की माँग की गई ।
- * केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई है कि कच्चे तेल में अत्याधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक्साइज ड्यूटी को तत्काल कम किया जाए । साथ ही, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी पेट्रोल एवं डीजल पर वेट की दर को कम किए जाने एवं अतिरिक्त कर (सरचार्ज) को समाप्त किए जाने की माँग की गई है, ताकि राज्य के आम नागरिकों सहित व्यवसायों एवं उद्योगपतियों को महँगाई की मार से राहत मिल सके।
- * प्रदेश के मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-श्रीमती माया सिंह जी को पत्र लिखकर, लोहा व्यवसायों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही किए जाने की माँग की गई, ताकि लोहा व्यवसायों को नवीन लोहा मण्डी में भूखण्ड उपलब्ध हो सकें और वह अपना कारोबार नवीन लोहा मण्डी में यथाशीघ्र प्रारम्भ कर लाभान्वित हो सके ।
- * संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, जिलाधीश-ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक-ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, मेसर्स ईकॉन आंतरी लि. में श्रमिकों के साथ मारपीट एवं फैक्ट्री में तोड़फोड़ की घटना के दोषी अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की माँग की गई है ।
